



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-17.06.2022

## थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त उपेन्द्र कुमार राय गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-66/2022 धारा 419,420,467,468,471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त उपेन्द्र कुमार राय पुत्र स्व0 खुशिहाल राय निवासी-म0नं0 सा0 5/137 क-10 संजय नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी को पहड़िया से आज दिनांक-17.06.2022 को समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक-05.03.2022 को वादी मुकदमा श्री चन्द्रशेखर राय पुत्र स्व0 खुशीहाल राय निवासी-सा 6/112 सी-15 जे.डी. नगर कालोनी फेस 1 अकथा पहड़िया थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ने अभियुक्तगण द्वारा अपनी माता स्व0 मालती राय का मृत्यु प्रमाण पत्र कूटरचित दस्तावेज के आधार पर माता की मृत्यु होने के बाद भी पेंशन प्राप्त किये जाने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0-66/2022 धारा 419,420,467,468,471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रकाश सिंह चौहान चौकी प्रभारी पहड़िया थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी द्वारा की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

उपेन्द्र कुमार राय पुत्र स्व0 खुशिहाल राय निवासी- म0नं0 सा0 5/137 क-10 संजय नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र 42 वर्ष।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ करने पर अभियुक्त उपेन्द्र कुमार राय ने बताया कि मेरे तथा मेरे छोटे भाई सुधीर कुमार राय के द्वारा माता जी की पेन्शन के लिए अपने पैतृक गाँव नगसर नेवाजुराय विकास खण्ड रेवतीपुर, गाजीपुर से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर लाया गया। जब बड़े भाई चन्द्रशेखर राय दर्खास्त देने लगे तो उसके समायोजन की प्रक्रिया में मैंने वरिष्ठ कोषाधिकारी वाराणसी को मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रार्थना पत्र देकर निकाले गये पैसों का समायोजन कराया।

### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्र0नि0 सतीश कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रकाश सिंह चौहान चौकी पहड़िया थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 पंकज सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 अखिलेश कुमार उपाध्याय थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

